

**Chinmaya Vidyalaya, NTPC Unchahar**  
**Consent Form**

Date:- \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ parent of \_\_\_\_\_ of class \_\_\_\_\_ hereby declare that my ward is fit and has no health issues. I give him/her consent to attend the school at my responsibility.

Signature of Student

Signature of Parent

**Chinmaya Vidyalaya, NTPC Unchahar**  
**Consent Form**

Date:- \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ parent of \_\_\_\_\_ of class \_\_\_\_\_ hereby declare that my ward is fit and has no health issues. I give him/her consent to attend the school at my responsibility.

Signature of Student

Signature of Parent

**Chinmaya Vidyalaya, NTPC Unchahar**  
**Consent Form**

Date:- \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ parent of \_\_\_\_\_ of class \_\_\_\_\_ hereby declare that my ward is fit and has no health issues. I give him/her consent to attend the school at my responsibility.

Signature of Student

Signature of Parent

#### IV. माता-पिता/अभिभावक

माता-पिता/अभिभावक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. यदि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए लिखित सहमति प्रदान करें।
2. सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा मास्क पहनकर स्कूल जाए और उन्हें दूसरों के साथ मास्क का आदान-प्रदान न करने के लिए जागरूक करें। मास्क घर पर भी बनाया जा सकता है। साबुन से पूरी तरह से धोने के बाद कपड़े से बने फेस मास्क का पुनः उपयोग किया जा सकता है। डिस्पोजल फेस मास्क का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाए।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर संपर्क जोखिम को कम करने के लिए अपने बच्चे को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल न भेजने का ध्यान रख सकते हैं।
5. जहां तक संभव हो बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़ें और लेकर आएं। यदि स्कूल बस से भेजा जाता है तो शारीरिक/सामाजिक दूरी बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि सभी ने मास्क पहना हो।
6. अभिभावकों को यह निर्देश दे कि वह बच्चे से कहें कि वह हर बार घर से बाहर जाने पर शारीरिक/सामाजिक दूरी का ध्यान रखे।
7. अपने बच्चे की वर्दी और अन्य सामान को प्रतिदिन साफ और सेनिटाइज़ करें।
8. सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखता है जैसे स्नान, दांतों को दिन में दो बार (सुबह और सोने से पहले) अच्छे से ब्रश करता है और नाखनों को टिम करता है।
9. हाथों को पोंछने के लिए अपने बच्चे को प्रतिदिन दो स्वच्छ छोटे नैपकिन/साफ कपड़े दें।
10. उनके लंच बॉक्स में स्वस्थ भोजन, ताजे फल और साफ पानी दें और अपने बच्चे को दूसरों के साथ अपने टिफिन और पानी की बोतल साझा न करने की सलाह दें।
11. यह सलाह दी जाती है कि माता-पिता/अभिभावक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और अपने बच्चे को तभी जाने दें जब ऐप सुरक्षित और कम जोखिम वाली स्थिति दिखाता है।